



PON VIDYASHRAM GROUP OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS

CLASS - VI HINDI II - LANGUAGE NOTES FOR AUGUST MONTH (2024-25)

PORTION :

पाठ : 5. तीज

पाठ : 6. चंदन का प्रदेश : कर्नाटक

कविता: 7. मीठे बोल

अनुच्छेद: प्रिय त्योहार

NOTES : पाठ : 5. तीज

I शब्दार्थ :

1. कुँवारी - वह महिला जिसका विवाह न हुआ हो - bachelorette
2. उत्सव - त्योहार - celebration
3. अस्तित्व - मौजूदगी - existence
4. रीति - रिवाज़ - परंपरा - customs
5. उपजाऊ - कृषि के लिए उपयुक्त - fertile
6. मंडप - तंबू - pavilion
7. कामना - अभिलाषा - appetency
8. वरदान - देवता , ऋषियों आदि से प्राप्त वर - book
9. सूर्यास्त - सूरज का छिपना - sun - set
10. आयोजन - प्रबंध - organizing
11. आध्यात्मिक - परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला - spiritual
12. विसर्जन - दान , त्यागना - dismissal

II सही विकल्प चुनिए :

1. बनजारों को तेलंगाना में क्या कहते हैं ? उत्तर: लंबाडा
2. बनजारों को तेलंगाना में क्या कहते हैं ? उत्तर: लंबाडा

3. ढंबोली क्या है ? उत्तर: कार्यक्रम

4. बनजारा समाज की बस्ती को क्या कहा जाता है ? उत्तर: टांडा

5. तीज का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है ? उत्तर: दस

III पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :

उत्तर: 1. जंगल उत्तर: 2. नायक उत्तर: 3. श्रवण शुक्ल से लेकर श्रवण कृष्ण अष्टमी

उत्तर: 4. गणगौर उत्तर: 5. दसवें दिन

IV पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1,2,3..... लिखिए :

उत्तर:1. (5) उत्तर:2. (4) उत्तर:3. (2) उत्तर:4. (1) उत्तर:5. (3)

V नीचे दिए गए वाक्यों में अल्प – विराम का प्रयोग कर अलग – अलग

अर्थ का बोध कराइए और उसका अर्थ अंग्रेज़ी में लिखिए :

उत्तर:क) Do not stop , let him go.

उत्तर:ख) Stop him, do not allow to go.

IV दिए गए संयुक्त व्यंजनों के शब्द लिखिए :

1. त्य - प्रत्येक 2. क्ल - शुक्ल 3. च्छ - इच्छा

4. ट्ट - मिट्टी 5. ल्ल - उल्लास 6. ड्ड - लड्डू

V क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए :

1. बनजारे रात भर गीत गाते हैं ।

2. इस दिन घरों में लड्डू बनते हैं ।

3. देवी ! पौधों से शाखा फूट रही है ।

4. बनजारे ने मिट्टी की पूजा की ।

VI वाक्यों को मिलाइए :

उत्तर:क) Today is teej festival

उत्तर:ख) The chief of Banjare is called ' Nayak ' .

उत्तर:ग) Girls keep fast on teej.

उत्तर:घ) Wheat seeds germinate on the fifth day.

उत्तर:ङ) Teej is dissolution the tenth day.

VII प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (मौखिक – Oral)

1. तीज किस समाज का उत्सव है ?

उत्तर : तीज बनजारा समाज का उत्सव है ।

2. ‘ लंबाडा ‘ और ‘ टांडा ‘ शब्दों का क्या अभिप्राय है ?

उत्तर: तेलंगाना में बनजारों को ‘ लंबाडा ‘ कहा जाता है और उनकी बस्ती को ‘ टांडा ‘ कहते हैं ।

VIII प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (लिखित – Written)

1. तीज का त्योहार कब और कितने दिनों तक मनाया जाता है ?

उत्तर: तीज का त्योहार श्रवण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से श्रवण कृष्ण पक्ष अष्टमी तक दस दिन मनाया जाता है ।

2. सातवें दिन क्या होता है ?

उत्तर: सातवें दिन ‘ ढंबोली ‘ कार्यक्रम का आयोजन होता है ।

3. दसवें दिन लड़कियाँ तीज का विसर्जन किस प्रकार करती हैं ?

उत्तर: दसवें दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रतीक मानी जाने वाली प्रतिमा

की पूजा करने के बाद लड़कियाँ तीज का विसर्जन करती हैं ।

पाठ :6. चंदन का प्रदेश : कर्नाटक

। शब्दार्थ:

1. मनोहर - जो मन का भाए pleasant
2. सुषमा – सुंदरता - splendour
3. न्योछावर – बलिदान - sacrifice
4. नक्काशी – धातु , लकड़ी आदि पर उकेर कर बनाई गई आकृति - carving
5. जलप्रपात – जल का एक स्रोत - waterfall
6. पर्यटक – घूमने के लिए आने वाला - tourist
7. उत्कृष्ट – अच्छा - excellent
8. व्यवसाय - रोजगार - business
9. अनुमति - आज्ञा - permission
10. पारंपरिक - जो परंपरा से चली आ रही हो - traditional

II सही विकल्प चुनिए:

1. भारत का विशालतम जलप्रपात कौन – सा है ? उत्तर: जोग
2. कर्नाटक में किस अवसर पर संगीत का विशेष आयोजन होता है ? उत्तर: रामनवमी
3. कौन – सी लड़की सुगंध और औषधीय गुण के कारण प्रसिद्ध है ? उत्तर: चंदन

III पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1,2,3..... लिखिए:

उत्तर:क) (4) उत्तर:ख) (5) उत्तर:ग) (3) उत्तर:घ) (1) उत्तर:ङ) (2)

III वाक्य पूरे कीजिए :

उत्तर:1. चंदन उत्तर: 2. हाथियों , चीतों और हिरनों उत्तर: 3. तमिल और तेलुगु

IV इन वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए:

उत्तर:क) घने उत्तर:ख) विशालतम उत्तर:ग) अधिकाधिक उत्तर:घ) प्राकृतिक

V पर्यायवाची शब्द लिखिए :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. उद्यान - बगीचा | 4. वृक्ष - पेड़ |
| 2. पहाड़ - पर्वत | 5. हाथी - गज |
| 3. नदी - सरिता | 6. हिरन - मृग |

VI है / हैं लिखकर वाक्य पूरे कीजिए :

उत्तर:क) है उत्तर:ख) हैं उत्तर:ग) हैं उत्तर:घ) है

VII अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए:

उत्तर:क) People of Karnataka also speaks Tamil.

उत्तर:ख) Trees of Sandal are in Karnataka.

उत्तर:ग) Jog is the biggest waterfall of India.

उत्तर:घ) Mysore is known as Silk City.

VIII प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (मौखिक – Oral)

1. क्या देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी समस्त सुषमा कर्नाटक पर बिखेर रही है ?

उत्तर: खुले मैदान, हरे – भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियाँ एवं शांत – गंभीर नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी समस्त सुषमा कर्नाटक पर बिखेर रही है ।

2. मैसूर को ‘ सिल्क सिटी ‘ क्यों कहा जाता है ?

उत्तर: रेशम के उत्पादन का केंद्र होने के कारण मैसूर को ' सिल्क सिटी ' कहा जाता है ।

IX प्रश्नों के उत्तर दीजिए : (लिखित - Written)

1. शिवसमुद्रम द्वीप क्यों प्रसिद्ध है ? यहाँ पर्यटक क्यों आते हैं ?

उत्तर: शिवसमुद्रम द्वीप पहाड़ियों , घाटियों तथा घने जंगलों के कारण प्रसिद्ध है ।

पर्यटक यहाँ उमड़ते - घुमड़ते जलप्रपात देखने आते हैं ।

2. कर्नाटक के जंगलों की क्या विशेषताएँ हैं ?

उत्तर: कर्नाटक के जंगलों में चंदन के वृक्ष काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं । यहाँ के जंगल हाथियों, चीतों और हिरनों के आश्रय स्थल हैं ।

3. शिल्प व तकनीक की दृष्टि से डॉ . विश्वेश्वरैया का कर्नाटक के लिए क्या योगदान है ?

उत्तर: डॉ . विश्वेश्वरैया द्वारा बनाया गया मैसूर का वृंदावन गार्डन शिल्प और तकनीक का उत्कृष्ट नमूना है । यह विश्व भर से आने वाले पर्यटकों के केंद्र है ।

कविता: 7. मीठे बोल

। कविता : (1 to 8 lines)

काले रंग का कौवा होता ,

काली ही कोयल होती ।

कोयल का सम्मान करें सब ,

कौवे की दुर्गति होती ।

रंग से कुछ फ़र्क न पड़ता ,

पड़े गुणों का मोल ।

कौवे की कर्कश काँव - काँव ,

कोयल के मीठे बोल ।

॥ शब्दार्थ:

1. कौवा - एक पक्षी - crow

2. सम्मान - इज्जत - respect

3. फ़र्क - अंतर - difference

4. कर्कश - कठोर – harsh
5. प्यार - स्नेह – love
6. कोयल - एक पक्षी – cuckoo
7. गुण - अच्छाई - virtue
8. मीठा - मधुर - sweet
9. मधुर - सुनने में अच्छा लगनेवाला - melody
10. दुर्गति - बुरी स्थिति - distress

III सही विकल्प चुनिए :

1. कौवा और कोयल किस रंग के होते हैं ? उत्तर : काले
2. कोयल का सब क्या करते हैं ? उत्तर : सम्मान
3. मधुर आवाज़ से क्या आशय है ? उत्तर : मीठी

IV इन क्रिया शब्दों में वाक्य बनाइए :

1. खिलना - फूलों का **खिलना** हमारे मन को भाता है ।
2. खेलना - **खेलना** स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ।
3. पढ़ना - बच्चों को मन लगाकर **पढ़ना** चाहिए ।
4. हँसना - **हँसना** भी एक प्रकार का व्यायाम है ।

V हिन्दी में अनुवाद कीजिए:

उत्तर:क) कौए और कोयल का रंग काला होता है ।

उत्तर:ख) आपकी आवाज़ बहुत मधुर है ।

उत्तर:ग) कौए की आवाज़ कर्कश होती है ।

उत्तर:घ) मधुर आवाज़ के कारण सभी कोयल से प्यार करते हैं ।

VI विलोम शब्द :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. काला × सफ़ | 4. सम्मान × अपमान |
| 2. दुर्गति × सद्गति | 5. कर्कश × मधुर |
| 3. प्यार × नफ़रत | 6. गुण × अवगुण |

VII प्रश्न – उत्तर (मौखिक – Oral)

1. सबसे प्यार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?

उत्तर: सबसे प्यार पाने के लिए हमें मधुर बोलना चाहिए ।

2. किस गुण के कारण कोयल सम्मान पाती है और कौवा अपमान ?

उत्तर: मधुर बोली के कारण ही कोयल सम्मान पाती है और कर्कश आवाज़ के कारण कौवा अपमानित होता है ।

VIII प्रश्न – उत्तर (लिखित – written)

1. कौवे और कोयल में क्या समानता है ?

उत्तर: कौवे और कोयल में रंग की समानता है । दोनों का रंग काला ही होता है ।

2. कौवे व कोयल में से किसकी आवाज़ आपको पसंद है और क्यों ?

उत्तर: मुझे कोयल की आवाज़ पसंद है क्योंकि वह मधुर बोलती है ।

3. कवि बच्चों से किसके समान मीठा बोलने के लिए कह रहा है ?

उत्तर: कवि बच्चों से कोयल के समान मीठा बोलने के लिए कह रहा है ।

अनुच्छेद: प्रिय त्योहार

1 दीपावली मेरा सबसे प्रिय त्योहार हैं ।

2 घरों में दीप जलाते हैं ।

3 कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं ।

4 हम नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ।

5 उत्साह और आनंद से पटाखे जलाते हैं ।

6 यह त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ भर देता हैं ।

I अनुच्छेद लेखन

महात्मा गाँधी

महात्मा गाँधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गाँधी था , माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनकी शिक्षा राजकोट में हुई। कानून पढ़ने के बाद वे आजादी की लड़ाई में लड़े । उनके साथ कई छनेताओं ने संघर्ष किया। उन्होंने कई

आंदोलन चलाये और भारत को आजादी दिलाई। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। वे सत्य, अहिंसा और शांति के समर्थक थे।

॥ चित्र वर्णन :- चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए :

उदाहरण : (For Example)

मेरा जन्मदिन



1. यह जन्मदिन का चित्र है ।
 2. मित्र , रिश्तेदार को इस अवसर पर निमंत्रण दिया जाता है ।
 3. जन्मदिन पर कई लोग आते हैं ।
 4. घर में केक काटते और कई पकवान बनते हैं ।
 5. यह दिन खुशी का दिन होता है ।
 6. ढेर सारे उपहार प्राप्त होते हैं ।
-